

हफ्ते हैकल

हफ्ते हैकल

हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलै० से रवायत है कि एक दिन हजरत रसूले खुदा सल० ने मुझसे पूछा कि ऐ अली तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी चीज तालीम करूँ कि जो सातों आस्मान व ज़मीन के रहने वाले एक साथ जमा होकर आपको तकलीफ़ देना चाहें तो भी नहीं दे सकते और कोई आपके ऊपर फ़तह नहीं हासिल कर सकता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल० मुझे ऐसी चीज तालीम कर दें इसके बाद आपने फ़रमाया कि कुआने मजीद में साल आयतें हैं जिनको अपने ऊपर पढ़कर दम

करें। (1) आयतें पढ़कर अपने सामने की तरफ़ दम करें (2) पीठ की तरफ़ दम करें (3) सर के ऊपर दम करें (4) पाँव की तरफ़ दम करें (5) दायें तरफ़ दम करें (6) बायें तरफ़ दम करें (7) पूरे बदन पर दम करें।

ऐ अली जो आदमी ये सात आयतें पढ़े और पास रखे तो खुदावन्दे आलम 70 हज़ार गुनाह उसके नामए आमाल से मिटा देगा, एक हज़ार नेकी उसके नामए आमला में लिखेगा, 70 हज़ार महल बहिश्त में उसके लिए तैयार करेगा, 70 हज़ार हूर और ग़िल्मान उसकी बख़्शिश करेंगे, 70 हज़ार हिल्ले उसको पहचानेंगे और उसकी अच्छाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ऐ अली जो कोई ये सात आयतें पढ़ेगा और अपने पास रखेगा तो खुदावन्दे आलम क़यामत के दिन अपने फ़ज़ल व करम से और सात हैकल की हुरमत से उसको बख़्श देगा चाहे वह आदमी अज़ाब के लायक़ भी हो। ऐ अली कोई बीमार के गले में ये सात आयतें पहनाएँ तो उसे बीमारी से शिफ़ा मिलेगी और अगर कोई अपने ऊपर दम करके हाकिम के पास जाए तो

वह उसकी इज्जत करेगा और उससे नाराज नहीं हो सकता।

- 1- कुल्लंय्युसी-बना इल्ला मा क-त-बल्लाहु लना हु-व मौलाना व अलल्लाहि फ़ल-य-त-वक्कलिल मोमिनून। (ये पढ़कर अपने सामने की तरफ़ दम करे।)
- 2- व इय्यम-ससकल्लाहु बि-जुरिन फ़ला काशि-फ़ लहू इल्ला हु-व व इय्युरिद-क बि-ख़ैरिन फ़ला राद-द लि-फ़ज़िलही युसीबु बिही मय्यशाउ मिन इबादिही व हु-वल ग़फ़ूरुरहीम। (ये पढ़कर अपनी पीठ की तरफ़ दम करे।)
- 3- वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अरज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअ्लमु मुस्तकर-रहा व मुस्तौ-द-अहा कुल्लुन फ़ी किताबिम्मुबीन। (ये पढ़कर अपने माथे के ऊपर दम करे।)
- 4- इन्नी तवक्कल्लु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हु-व अख़िजुन बिनासि-यतिहा

इन-न रब्बी अला सिरातिम्मुस्तकीम । (ये पढ़कर पाँव की तरफ़ दम करे ।)

5- व-क-अय्यिम मिन दाब्बतिल ला तहमिलु रिज़-क़हा अल्लाहु यर-जु-कुहा व इय्याकुम व हुवस्समीउल अलीम । (ये पढ़कर अपने दायें तरफ़ दम करे ।)

6- मा तफ़-तहिल्लाहु लिन्नासि मिरहमतिन फ़ला मुम्सि-क लहा वमा युम्सि-क फ़ला मुरसि-ल लहू मिम बअदिही व हुवल अज़ीजुल हकीम । (ये पढ़कर अपने बायें तरफ़ दम करे ।)

7- व-ल-इन सअल्लुम मन ख़-ल-क़स्समावाति वल अरज़ि ल-यकूलुनल्लाहु कुल अ-फ़-र-ऐतुम मा तद-ऊ-न मिन दूनिल्लाहि इन अरा-दनियल्लाहु बि-जुरिंन हल हुन-न काशिफ़ातु जुरिंही औ अरा-दनी बि-रह-मतिही कुल हस्बियल्लाहु अलैहि य-त-वक्कलुल मु-त-वक्कलून । (ये पढ़कर पूरे

Ayarteshifa.in

Page 4